



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2009/अग्रहायण 27, 1931

No. 718]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2009/AGRAHAYANA 27, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 905(अ).— भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) ये विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियमावली, 2009 कहलाएंगे।

(ii) ये सरकारों राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में, 'उत्तर प्रदेश' शीर्षक और इसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ इयूटी पद	133
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष	1
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक	1

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, अनुसंधान और प्रशिक्षण	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना और कृषि वानिकी	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लेखा परीक्षा और गैर-योजना	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी	1
मुख्य वन संरक्षक (डिवीजनल) लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर	4
मुख्य वन संरक्षक-(प्रादेशिक) पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, दक्षिण क्षेत्र इलाहाबाद, बुंदेलखण्ड क्षेत्र झांसी, पश्चिम क्षेत्र मेरठ, रुहेलखण्ड क्षेत्र बरेली, केन्द्रीय क्षेत्र लखनऊ, आगरा क्षेत्र, आगरा	7
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक वन प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर	1
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक वन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	1
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (अराजपत्रित)	1
मुख्य वन संरक्षक, न्यायालय मामले	1
मुख्य वन संरक्षक, ईको-विकास	1
मुख्य वन संरक्षक, वन प्रबंधन	1
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना	1
मुख्य वन संरक्षक, नीति विश्लेषण और समन्वय	1
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित)	1
मुख्य वन संरक्षक, निगरानी और मूल्यांकन	1
मुख्य वन संरक्षक, योजना	1
मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	1
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980	1
मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक, दुधवा राष्ट्रीय पार्क	1
मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास	1
मुख्य वन संरक्षक, विस्तार और प्रचार	1
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पूर्वी) इलाहाबाद	1
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी) मेरठ	1
मुख्य वन संरक्षक, वित्त और लेखा परीक्षा	1
मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख और व्यवस्थापन	1
मुख्य वन संरक्षक/सुरक्षा और सतर्कता	1
मुख्य वन संरक्षक, सीएएमपीए	1
वन संरक्षक (प्रादेशिक) इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती, चित्रकूटधाम, बांदा, देवीपत्तन गोंडा, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, वाराणसी, झांसी, बरेली एवं आगरा	13

	वन संरक्षक (प्रादेशिक) अलीगढ़ मण्डल	1
	वन संरक्षक/कार्य योजना अधिकारी	4
	वन संरक्षक, वनवृक्ष विज्ञानी-कानपुर बरेली, वाराणसी	3
	वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय प्राणी-विज्ञान पार्क, कानपुर	1
	वन संरक्षक, निगरानी, विंध्य वाराणसी	1
	वन संरक्षक, निगरानी, तराई बरेली	1
	वन संरक्षक, निगरानी, प्लेन्स कानपुर	1
	वन संरक्षक, एक्सटिंक्ट परियोजना लखनऊ	1
	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक)-आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, आजमगढ़,	66
	अम्बेडकर नगर, बदायूं, बेहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, झांसी, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, महोबा, उत्तर खेरी, दक्षिण खेरी, ओबरा, सामाजिक वानिकी मण्डल, पीलीभीत, पटौना (खुशीनगर), प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, रेनुकूट, सहारनपुर, शाहजहांपुर, औरैया (जालौन), सीतापुर, सोनभद्र, पीलीभीत, सुल्तानपुर, शिवालिक, उन्नाव, वाराणसी, काशी वन्यजीव, कतरनियाघाट, वन्यजीव बेहराइच, सोहेल्वा वन्य जीव, सोहागीबड़वा वन्यजीव, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गौतमबुद्धनगर (नोयडा)	
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ के उप वन संरक्षक	1
(1)	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	133
(2)	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं	26
(3)	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	33
(4)	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	04
(5)	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	21
(6)	भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 (उपर्युक्त 1, 2, 3 और 4 मदों के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं) के नियम 9 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद	65
(7)	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1+2+3+4+5-6)	152
	कुल प्राधिकृत संख्या (उपर्युक्त मद 6+7)	217

[ फा. सं. 16016/05/2009-अ.भा.से.-II (क) ]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी-1 :— इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, कुल प्राधिकृत संख्या 199 थी ।

टिप्पणी-2 :—मुख्य विनियम अधिसूचना सं. 6/1/66-अभासे.(iv) तारीख 30.10.1966 द्वारा, साकानि सं. 1672 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 31.10.1966 में अधिसूचित किए गए थे और भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में नीचे दी गई साकानि सं. द्वारा मंशोधित की गई:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख
1	1673	30.10.66	43.	31अ	23.1.81
2	17	7.1.67	44.	84(अ)	27.2.81
3	653	6.5.67	45.	456(अ)	9.5.81
4	654	6.5.67	46.	360(अ)	23.5.81
5	689	13.5.67	47.	276(अ)	2.6.81
6	1083	8.6.68	48.	386(अ)	9.6.81
7	1887	9.8.69	49.	602(अ)	16.11.81
8	80	17.1.70	50.	604(अ)	17.11.81
9	485	21.3.70	51.	653(अ)	10.12.81
10	545	4.4.70	52.	657(अ)	11.12.81
11	1802	24.10.70	53.	294(अ)	1.4.82
12	135	24.1.75	54.	354(अ)	26.4.82
13	136	24.1.71	55.	356(अ)	27.4.82
14	665	8.5.71	56.	778(अ)	31.5.82
15	45(अ)	20.1.72	57.	530(अ)	20.8.82
16	47(अ)	20.1.72	58.	24अ	12.1.83
17	48(अ)	20.1.72	59.	126(अ)	28.2.85
18.	478(अ)	4.12.72	60.	308(अ)	26.3.85
19.	192(अ)	2.4.73	61.	327अ	29.3.85
20.	321(अ)	27.6.73	62.	489अ	12.6.85
21.	391(अ)	10.8.73	63.	266	12.4.86
22.	142	24.1.71	64.	654	30.8.86
23.	28(अ)	8.5.71	65.	763.	20.9.86
24.	273(अ)	11.1.72	66.	798.	27.9.86
25.	300(अ)	20.1.72	67.	796	27.9.86
26.	812	29.4.72	68.	835	4.10.86
27.	2227	16.8.75	69.	837	4.10.86
28.	71	17.1.76	70.	880	18.10.86

29.	407(अ)	16.6.76	71.	164	14.3.87
30.	1064	24.7.76	72.	407	30.5.87
31.	444 (अ)	6.7.76	73.	619	15.3.87
32.	750 (अ)	3.8.76	74.	802	31.10.87
33.	93 (अ)	26.2.77	75.	826	7.11.87
34.	631 (अ)	5.10.77	76.	835	14.10.87
35.	13 (अ)	6.1.78	77.	836	14.11.87
36.	360(अ)	13.7.78	78.	432अ	6.4.88
37.	436(अ)	29.8.78	79.	546अ	4.5.88
38.	486(अ)	25.8.80	80.	834अ	3.8.88
39.	562(अ)	30.9.80	81.	352अ	10.3.89
40.	626अ	3.11.80	82.	553अ	16.5.89
41.	631अ	4.11.80	83.	455	1.7.89
42.	21अ	17.1.81	84.	832	11.11.89

85.	916	16.12.89	121	741अ	31.12.97
86.	933	30.12.89	122	40	29.1.98
87.	590	22.9.90	123	617अ	14.1.98
88.	603	29.9.90	124	372	10.12.99
89.	728	8.12.90	125	374	10.12.99
90.	730	8.12.90	126	824अ	21.10.2000
91.	125(अ)	5.3.91	127	827अ	21.10.2000
92.	246	13.4.91	128	830अ	21.10.2000
93.	473	24.8.91	129	141	27.4.2002
94.	527	14.9.91	130	143	27.4.2002
95.	565	5.10.91	131	139	27.4.2002
96.	584	19.10.91	132	145	27.4.2002
97.	538(अ)	6.8.93	133	147	27.4.2002
98.	685(अ)	4.11.93	134	372	21.9.2002
99.	687(अ)	4.11.93	135	173	26.4.2003
100.	514	22.10.94	136	34 (अ)	24.01.2006
101.	513	22.10.94	137	287(अ)	16.05.2006
102.	321अ	31.3.95	138	289 (अ)	16.05.2006
103.	213	29.4.95	139	562(अ)	15.09.2006

104.	278	10.6.95	140	564(अ)	15.09.2006
105.	264	6.6.95	141	566(अ)	15.09.2006
106.	339	22.7.95	142	724(अ)	23.11.2006
107.	375	12.8.95	143	703(अ)	12.08.2007
108.	480	18.11.95	144	765(अ)	12.12.2007
109.	479	18.11.95	145	609(अ)	26.08.2008
110	503	2.12.95	146	109(अ)	21.02.2008
111	537	9.12.95	147	610(अ)	26.08.2008
112	75अ	5.2.96	148	716(अ)	03.10.2008
113	77अ	5.2.96	149	748(अ)	21.10.2008
114	231	8.6.96	150	190(अ)	24.03.2009
115	233	8.6.96	151	193(अ)	24.03.2009
116	589अ	26.12.96	152	498(अ)	07.07.2009
117	587अ	26.12.96	153	500(अ)	07.07.2009
118	585अ	26.12.96	154	502(अ)	07.07.2009
119	17अ	17.1.97	155	504(अ)	07.07.2009
120	413	20.12.97	156	506(अ)	07.07.2009

# MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 905(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 the Central Government in consultation with the Government of **Uttar Pradesh** hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 namely:-

1. (i) These Regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Eighth Amendment Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service ((Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "**Uttar Pradesh**" and the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely:-

### UTTAR PRADESH

<b>Senior Duty Posts under the State Government</b>	<b>133</b>
Principal Chief Conservator of Forests & Head of Department	1
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)/Chief Wildlife Warden	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Project	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Working Plan, Research and Training	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests , Planning & Agro Forestry	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Audit & Non-Plan	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Information Technology	1
Chief Conservator of Forests (Divisional) Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Mirzapur	4
Chief Conservator of Forests (Territorial) - Eastern Region Gorakhpur, Southern Region Allahabad, Bundelkhand Region Jhansi, Western Region Meerut, Ruhelkhand Region Bareilly, Central Region Lucknow, Agra Region, Agra	7
Chief Conservator of Forests/Director Forests Training Institute, Kanpur	1
Chief Conservator of Forests/Director Forests Research Institute, Kanpur	1
Chief Conservator of Forests, Administration (Non-Gazetted)	1
Chief Conservator of Forests, Court Cases	1
Chief Conservator of Forests, Eco-Development	1
Chief Conservator of Forests, Forests Forest Management	1
Chief Conservator of Forests, Working Plan	1
Chief Conservator of Forests, Policy Analysis & Co-ordination	1
Chief Conservator of Forests, Administration (Gazetted)	1
Chief Conservator of Forests, Monitoring & Evaluation	1
Chief Conservator of Forests, Planning	1
Chief Conservator of Forests, Project	1
Chief Conservator of Forests/Nodal Officer Forest Protection Act, 1980	1
Chief Conservator of Forests/Field Director, Dudhwa National Park	1
Chief Conservator of Forests, Human Resource Development	1

	Chief Conservator of Forests, Extension & Publicity	1
	Chief Conservator of Forests, Wildlife (Eastern) Allahabad	1
	Chief Conservator of Forests, Wildlife (Western) Meerut	1
	Chief Conservator of Forests, Finance & Accounts Audit	1
	Chief Conservator of Forests, Land Records & Settlement	1
	Chief Conservator of Forests/Security & Vigilance	1
	Chief Conservator of Forests, CAMPA	1
	Conservator of Forests (Territorial) - Allahabad, Azamgarh, Basti, Chitrakutdham Banda, Devipattan Gonda, Moradabad, Meerut, Saharanpur, Faizabad, Varanasi, Jhansi, Bareilly & Agra.	13
	Conservator of Forests (Territorial) Aligarh Circle	1
	Conservator of Forests/Working Plan Officer	4
	Conservator of Forests, Silviculturist-Kanpur, Bareilly, Varanasi	3
	Conservator of Forests/Director National Zoological Park, Kanpur	1
	Conservator of Forests, Monitoring, Vindhya Varanasi	1
	Conservator of Forests, Monitoring, Terai Bareilly	1
	Conservator of Forests, Monitoring, Plains Kanpur	1
	Conservator of Forests, Extinct Project Lucknow	1
	Deputy Conservator of Forests (Territorial) - Agra, Aligarh, Allahabad, Lucknow, Azamgarh, Ambedkarnagar, Badaun, Beharaich, Balia, Banda, Barabanki, Bareilly, Basti, Bijnore, Bulandshaher, Jhansi, Chitrakoot, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad, Fatehpur, Firozabad, Gaziabad, Gazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Jaunpur, Kanpur, Lalitpur, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Mahoba, North Kheri, South Kheri, Obra, Social Forestry Division, Pilibhit, Padrauna (Kushinagar), Pratapgarh, Raibareilly, Rampur, Renukoot, Saharanpur, Shahjahanpur, Oria (Jalaun), Sitapur, Sonbhadra, Pilibhit, Sultanpur, Shivalik, Unnao, Varanasi, Kashi Wildlife, Katarniaghat, Wildlife Beharaich, Sohewla Wildlife, Sohagibarwa Wildlife, Shrawasti, Sidharthanagar, Gautambudhnagar (Noida)	66
	Deputy Conservator of Forests to Principal Chief Conservator of Forests, Lucknow.	1
(1)	<b>Total Senior Duty Posts</b>	<b>133</b>
(2)	Central Deputation Reserve not exceeding 20 % of Item 1 above	26
(3)	State Deputation Reserve not exceeding 25 % of Item 1 above	33



(4)	Training Reserve not exceeding 3.5 % of Item 1 above	04
(5)	Leave Reserve and Junior Post Reserve not exceeding 16.5 % of Item 1 above	21
(6)	Posts to be filled by Promotion under Rule 9 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, not exceeding 33.3% of items 1,2,3 & 4 above	65
(7)	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5 – 6 above)	152
	<b>Total Authorized Strength (Items 6 + 7 above)</b>	<b>217</b>

[F. No. 16016/05/2009-AIS-II(A)]

HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note-1:—**Prior to the issue of this Notification, the total authorized strength of the IFS Cadre of Uttar Pradesh was 199.

**Note 2:—**The Principal Regulations were notified vide notification No.6/1/66-AIS(IV), dated 30.10.1966 as GSR No.1672 in the Extraordinary Gazette of India dated 31.10.1966 and Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 have been amended, vide GSR Nos. given below:

S. No.	GSR No.	Date of Publication	S. No.	GSR No.	Date of Publication
1	1673	30.10.66	32	750 (E)	3.8.76
2	17	7.1.67	33	93 (E)	26.2.77
3	653	6.5.67	34	631 (E)	5.10.77
4	654	6.5.67	35	13 (E)	6.1.78
5	689	13.5.67	36	360(E)	13.7.78
6	1083	8.6.68	37	436(E)	29.8.78
7	1887	9.8.69	38	486(E)	25.8.80
8	80	17.1.70	39	562(E)	30.9.80
9	485	21.3.70	40	626E	3.11.80
10	545	4.4.70	41	631E	4.11.80
11	1802	24.10.70	42	21E	17.1.81
12	135	24.1.75	43	31E	23.1.81
13	136	24.1.71	44	84(E)	27.2.81
14	665	8.5.71	45	456(E)	9.5.81
15	45(E)	20.1.72	46	360(E)	23.5.81
16	47(E)	20.1.72	47	276(E)	2.6.81
17	48(E)	20.1.72	48	386(E)	9.6.81
18	478(E)	4.12.72	49	602(E)	16.11.81
19	192(E)	2.4.73	50	604(E)	17.11.81
20	321(E)	27.6.73	51	653(E)	10.12.81
21	391(E)	10.8.73	52	657(E)	11.12.81
22	142	24.1.71	53	294(E)	1.4.82
23	28(E)	8.5.71	54	354(E)	26.4.82
24	273(E)	11.1.72	55	356(E)	27.4.82
25	300(E)	20.1.72	56	778(E)	31.5.82
26	812	29.4.72	57	530(E)	20.8.82
27	2227	16.8.75	58	24E	12.1.83
28	71	17.1.76	59	126(E)	28.2.85
29	407(E)	16.6.76	60	308(E)	26.3.85
30	1064	24.7.76	61	327E	29.3.85
31	444 (E)	6.7.76	62	489E	12.6.85

63.	266	12.4.86	74.	802	31.10.87
64.	654	30.8.86	75.	826	7.11.87
65.	763	20.9.86	76.	835	14.10.87
66.	798	27.9.86	77.	836	14.11.87
67.	796	27.9.86	78.	432E	6.4.88
68.	835	4.10.86	79.	546E	4.5.88
69.	837	4.10.86	80.	834E	3.8.88
70.	880	18.10.86	81.	352E	10.3.89
71.	164	14.3.87	82.	553E	16.5.89
72.	407	30.5.87	83.	455	1.7.89
73.	619	15.3.87	84.	832	11.11.89

85.	916	16.12.89	121.	741E	31.12.97
86.	933	30.12.89	122.	40	29.1.98
87.	590	22.9.90	123.	617E	14.1.98
88.	603	29.9.90	124.	372	10.12.99
89.	728	8.12.90	125.	374	10.12.99
90.	730	8.12.90	126.	824E	21.10.2000
91.	125(E)	5.3.91	127.	827E	21.10.2000
92.	246	13.4.91	128.	830E	21.10.2000
93.	473	24.8.91	129.	141	27.4.2002
94.	527	14.9.91	130.	143	27.4.2002
95.	565	5.10.91	131.	139	27.4.2002
96.	584	19.10.91	132.	145	27.4.2002
97.	538(E)	6.8.93	133.	147	27.4.2002
98.	685(E)	4.11.93	134.	372	21.9.2002
99.	687(E)	4.11.93	135.	173	26.4.2003
100.	514	22.10.94	136.	34 (E)	24.01.2006
101.	513	22.10.94	137.	287(E)	16.05.2006
102.	321E	31.3.95	138.	289 (E)	16.05.2006
103.	213	29.4.95	139.	562(E)	15.09.2006
104.	278	10.6.95	140.	564(E)	15.09.2006
105.	264	6.6.95	141.	566(E)	15.09.2006
106.	339	22.7.95	142.	724(E)	23.11.2006
107.	375	12.8.95	143.	703(E)	12.08.2007
108.	480	18.11.95	144.	765(E)	12.12.2007
109.	479	18.11.95	145.	609(E)	26.08.2008
110.	503	2.12.95	146.	109(E)	21.02.2008
111.	537	9.12.95	147.	610(E)	26.08.2008
112.	75E	5.2.96	148.	716(E)	03.10.2008
113.	77E	5.2.96	149.	748(E)	21.10.2008
114.	231	8.6.96	150.	190(E)	24.03.2009
115.	233	8.6.96	151.	193(E)	24.03.2009
116.	589E	26.12.96	152.	498(E)	07.07.2009
117.	587E	26.12.96	153.	500(E)	07.07.2009
118.	585E	26.12.96	154.	502(E)	07.07.2009
119.	17E	17.1.97	155.	504(E)	07.07.2009
120.	413	20.12.97	156.	506(E)	07.07.2009

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 906(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. (i) ये नियम भारतीय वन सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियमावली, 2009 कहलाएंगे ।  
(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:-

(क) "अनुसूची II-क में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा में समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली 'उत्तर प्रदेश' प्रविष्टि और द्वितीय कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## उत्तर प्रदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष	80,000 रुपये (नियत)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक	एचएजी-वेतनमान: 75500/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 80000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	एचएजी वेतनमान: 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, अनुसंधान और प्रशिक्षण	एचएजी वेतनमान: 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना और कृषि वानिकी	एचएजी वेतनमान: 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लेखा परीक्षा और गैर-योजना	एचएजी वेतनमान: 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी	एचएजी वेतनमान: 67000/- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से)- 79000/-
मुख्य वन संरक्षक (डिवीजनल) लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, (प्रादेशिक) पूर्वी क्षेत्र गोरखपुर, दक्षिण क्षेत्र इलाहाबाद, बुंदेलखण्ड क्षेत्र झांसी, पश्चिम क्षेत्र मेरठ, रुहेलखण्ड क्षेत्र बरेली, केन्द्रीय क्षेत्र लखनऊ, आगरा क्षेत्र, आगरा	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक वन प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/निदेशक वन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (अराजपत्रित)	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, न्यायालय मामले	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, ईको-विकास	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, वन प्रबंधन	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, नीति विश्लेषण और समन्वय	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन (राजपत्रित)	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, निगरानी और मूल्यांकन	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, योजना	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, परियोजना	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र निदेशक, दुधवा राष्ट्रीय पार्क	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, विस्तार और प्रचार	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पूर्वी) इलाहाबाद	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी) मेरठ	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, वित्त और लेखा परीक्षा	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख और व्यवस्थापन	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक/सुरक्षा और सतर्कता	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, सीएएमपीए	पीबी-4+जीपी-10000/- रु.
वन संरक्षक (प्रादेशिक) इलाहाबाद, आजमगढ़, बस्ती,	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.

चित्रकूटधाम, बांदा, देवीपत्तन गोंडा, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, फैजाबाद, वाराणसी, झांसी, बरेली एवं आगरा	
वन संरक्षक (प्रादेशिक) अलीगढ़ मण्डल	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक/कार्य योजना अधिकारी	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, वनवृक्ष विज्ञानी-कानपुर बरेली, वाराणसी	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय प्राणी-विज्ञान पार्क, कानपुर	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, निगरानी, विंध्य वाराणसी	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, निगरानी, तराई बरेली	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, निगरानी, प्लेन्स कानपुर	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.
वन संरक्षक, लुप्त परियोजना लखनऊ	पीबी-4+जीपी-8900/- रु.

(ख) अनुसूची-11ख: राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के पदों जिसमें समय वेतनमान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के पद शामिल हैं की 'उत्तर प्रदेश' प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) - आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बदायूं, बेहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, झांसी, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, महोबा, उत्तर खेरी, दक्षिण खेरी, ओबरा, सामाजिक वानिकी मण्डल, पीलीभीत, पटौना (खुशीनगर), प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, रेनुकूट, सहारनपुर, शाहजहांपुर, औरैया (जालौन), सीतापुर, सोनभद्र, पीलीभीत, सुल्तानपुर, शिवालिक, उन्नाव, वाराणसी, काशी वन्यजीव, कतरनियाघाट, वन्यजीव बेहराइच, सोहेल्वा वन्य जीव, सोहागीबड़वा वन्यजीव, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, गौतमबुद्धनगर (नोयडा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ के उप वन संरक्षक

[ फा. सं. 16016/05/2009-अ.भा.से.-11 (बी) ]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी :- मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में, सा.का.नि. सं. 109(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में, सा.का.नि. सं. 691(अ) दिनांक 27.09.2008 और सा.का.नि. सं. 588(अ) दिनांक 20.08.2009 द्वारा संशोधित किए गए।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 906(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 namely:-

1. (i) These Rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Eighth Amendment Rules, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007:-
  - (a) In "Schedule II- A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments" in the Table, for the entry 'Uttar Pradesh' appearing in the first column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted, namely:

**UTTAR PRADESH**

Principal Chief Conservator of Forests & Head of Department	Rs 80,000/- (Fixed)
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)/Chief Wildlife Warden	HAG+:Rs.75500 (annual increment @ 3%)-Rs.80000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Project	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Working Plan, Research and Training	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests , Planning & Agro Forestry	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Audit & Non-Plan	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests, Information Technology	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-

Chief Conservator of Forests (Divisional) Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Mirzapur	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Territorial) - Eastern Region Gorakhpur, Southern Region Allahabad, Bundelkhand Region Jhansi, Western Region Meerut, Ruhelkhand Region Bareilly, Central Region Lucknow, Agra Region, Agra	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Director Forests Training Institute, Kanpur	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Director Forests Research Institute, Kanpur	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Administration (Non-Gazetted)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Court Cases	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Eco-Development	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Forests Forest Management	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Working Plan	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Policy Analysis & Co-ordination	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Administration (Gazetted)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Monitoring & Evaluation	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Planning	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Project	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Nodal Officer Forest Protection Act, 1980	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Field Director, Dudhwa National Park	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Human Resource Development	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Extension & Publicity	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Wildlife (Eastern) Allahabad	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Wildlife (Western) Meerut	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Finance & Accounts Audit	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Land Records & Settlement	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests/Security & Vigilance	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, CAMPA	PB-4+GP-Rs 10000/-
Conservator of Forests (Territorial) Allahabad, Azamgarh, Basti, Chitrakutdham Banda, Devipattan Gonda, Moradabad, Meerut, Saharanpur, Faizabad, Varanasi, Jhansi, Bareilly & Agra.	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests (Territorial) Aligarh Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests/Working Plan Officer	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Silviculturist-Kanpur, Bareilly, Varanasi	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests/Director National Zoological Park, Kanpur	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Monitoring, Vindhya Varanasi	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Monitoring, Terai Bareilly	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Monitoring, Plains Kanpur	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Extinct Project Lucknow	PB-4+GP-Rs 8900/-

(b) In Schedule-II B: Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the entry 'Uttar Pradesh', the following shall be substituted, namely:

Deputy Conservator of Forests (Territorial) - Agra, Aligarh, Allahabad, Lucknow, Azamgarh, Ambedkarnagar, Badaun, Beharaich, Balia, Banda, Barabanki, Bareilly, Basti, Bijnore, Bulandshaher, Jhansi, Chitrakoot, Deoria, Etah, Etawah, Faizabad, Farrukhabad, Fatehpur, Firozabad, Gaziabad, Gazipur, Gonda, Gorakhpur, Hamirpur, Hardoi, Jaunpur, Kanpur, Lalitpur, Mainpuri, Mathura, Meerut, Mirzapur, Moradabad, Muzaffarnagar, Mahoba, North Kheri, South Kheri, Obra, Social Forestry Division, Pilibhit, Padrauna (Kushinagar), Pratapgarh, Raibareilly, Rampur, Renukoot, Saharanpur, Shahjahanpur, Oria (Jalaun), Sitapur, Sonbhadra, Pilibhit, Sultanpur, Shivalik, Unnao, Varanasi, Kashi Wildlife, Katarniaghat, Wildlife Beharaich, Sohela Wildlife, Sohagibarwa Wildlife, Shrawasti, Sidharthanagar, Gautambudhnagar (Noida)

Deputy Conservator of Forests to Principal Chief Conservator of Forests, Lucknow.

[F. No. 16016/05/2009-AIS-II(B)]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note:** The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No.109(E) dated the 21.02.2008 and subsequently were amended vide GSR No.691(E) dated 27.09.2008 and GSR No. 588(E) dated 20.08.2009.

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 907(अ). - भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिविकम सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) नौवा संशोधन विनियमावली, 2009 है ।

(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में “सिविकम” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -



## सिक्किम

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद	19
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सेवा प्रमुख)	01
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	01
	मुख्य वन संरक्षक	02
	वन संरक्षक (प्रादेशिक)	01
	वन संरक्षक (भूमि संरक्षण)	01
	वन संरक्षक (अनुसंधान और विकास)	01
	वन संरक्षक (वन्यजीव)	01
	वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	01
	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण	04
	उप वन संरक्षक, (वन्यजीव) उत्तर पूर्व	02
	उप वन संरक्षक (कार्य योजना)	01
	उप वन संरक्षक (भूमि संरक्षण)	02
	मुख्य वन संरक्षक के तकनीकी सहायक और उप वन संरक्षक	01
1.	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	19
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का 20% से अधिक नहीं	03
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का 25% से अधिक नहीं	04
4.	प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का 3.5% से अधिक नहीं	01
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	03
6.	भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33-1/3% से अधिक नहीं	09
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)	21
	कुल प्राधिकृत संख्या (उपर्युक्त क्र.सं. 6+7)	30

[ फा. सं. 16016/03/2009-अ.भा.से.-II (क) ]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी-1 :- इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, कुल प्राधिकृत पद संख्या 30 थी ।

टिप्पणी-2 :- मुख्य विनियम दिनांक 30.10.1966 की अधिसूचना संख्या 6/1/66-अ.भा.से.(IV) के तहत सा.का.नि. संख्या 1672 के रूप में दिनांक 31.10.1966 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय वन (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा किए गए हैं :-

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	प्रकाशन की तारीख
1	1673	30.10.66	51.	653(अ)	10.12.81
2	17	7.1.67	52.	657(अ)	11.12.81
3	653	6.5.67	53.	294(अ)	1.4.82
4	654	6.5.67	54.	354(अ)	26.4.82
5	689	13.5.67	55.	356(अ)	27.4.82
6	1083	8.6.68	56.	778(अ)	31.5.82
7	1887	9.8.69	57.	530(अ)	20.8.82
8	80	17.1.70	58.	24अ	12.1.83
9	485	21.3.70	59.	126(अ)	28.2.85
10	545	4.4.70	60.	308(अ)	26.3.85
11	1802	24.10.70	61.	327अ	29.3.85
12	135	24.1.75	62.	489अ	12.6.85
13	136	24.1.71	63.	266	12.4.86
14	665	8.5.71	64.	654	30.8.86
15	45(अ)	20.1.72	65.	763.	20.9.86
16	47(अ)	20.1.72	66.	798.	27.9.86
17	48(अ)	20.1.72	67.	796	27.9.86
18.	478(अ)	4.12.72	68.	835	4.10.86
19.	192(अ)	2.4.73	69.	837	4.10.86
20.	321(अ)	27.6.73	70.	880	18.10.86
21.	391(अ)	10.8.73	71.	164	14.3.87
22.	142	24.1.71	72.	407	30.5.87
23.	28(अ)	8.5.71	73.	619	15.3.87
24.	273(अ)	11.1.72	74.	802	31.10.87
25.	300(अ)	20.1.72	75.	826	7.11.87
26.	812	29.4.72	76.	835	14.10.87
27.	2227	16.8.75	77.	836	14.11.87
28.	71	17.1.76	78.	432अ	6.4.88
29.	407(अ)	16.6.76	79.	546अ	4.5.88
30.	1064	24.7.76	80.	834अ	3.8.88
31.	444 (अ)	6.7.76	81.	352अ	10.3.89
32.	750 (अ)	3.8.76	82.	553अ	16.5.89
33.	93 (अ)	26.2.77	83.	455	1.7.89
34.	631 (अ)	5.10.77	84.	832	11.11.89
35.	13 (अ)	6.1.78	85.	916	16.12.89
36.	360(अ)	13.7.78	86.	933	30.12.89
37.	436(अ)	29.8.78	87.	590	22.9.90
38.	486(अ)	25.8.80	88.	603	29.9.90
39.	562(अ)	30.9.80	89.	728	8.12.90
40.	626अ	3.11.80	90.	730	8.12.90
41.	631अ	4.11.80	91.	125(अ)	5.3.91
42.	21अ	17.1.81	92.	246	13.4.91
43.	31अ	23.1.81	93.	473	24.8.91
44.	84(अ)	27.2.81	94.	527	14.9.91
45.	456(अ)	9.5.81	95.	565	5.10.91
46.	360(अ)	23.5.81	96.	584	19.10.91
47.	276(अ)	2.6.81	97.	538(अ)	6.8.93
48.	386(अ)	9.6.81	98.	685(अ)	4.11.93
49.	602(अ)	16.11.81	99.	687(अ)	4.11.93
50.	604(अ)	17.11.81	100.	514	22.10.94

101.	513	22.10.94	129	141	27.4.2002
102.	321अ	31.3.95	130	143	27.4.2002
103.	213	29.4.95	131	139	27.4.2002
104.	278	10.6.95	132	145	27.4.2002
105.	264	6.6.95	133	147	27.4.2002
106.	339	22.7.95	134	372	21.9.2002
107.	375	12.8.95	135	173	26.4.2003
108.	480	18.11.95	136	34 (अ)	24.01.2006
109.	479	18.11.95	137	287(अ)	16.05.2006
110.	503	2.12.95	138	289 (अ)	16.05.2006
111.	537	9.12.95	139	562(अ)	15.09.2006
112.	75अ	5.2.96	140	564(अ)	15.09.2006
113.	77अ	5.2.96	141	566(अ)	15.09.2006
114.	231	8.6.96	142	724(अ)	23.11.2006
115.	233	8.6.96	143	703(अ)	12.08.2007
116.	589अ	26.12.96	144	765(अ)	12.12.2007
117.	587अ	26.12.96	145	609 (अ)	26.08.2008
118.	585अ	26.12.96	147	610(अ)	26.08.2008
119.	17अ	17.1.97	148	716(अ)	03.10.2008
120.	413	20.12.97	149	748(अ)	21.10.2008
121.	741अ	31.12.97	150	190(अ)	24.03.2009
122.	40	29.1.98	151	193(अ)	24.03.2009
123.	617अ	14.1.98	152	498(अ)	07.07.2009
124.	372	10.12.99	153	500(अ)	07.07.2009
125.	374	10.12.99	154	502(अ)	07.07.2009
126.	824अ	21.10.2000	155	504(अ)	07.07.2009
127.	827अ	21.10.2000	156	506(अ)	07.07.2009
128.	830अ	21.10.2000			

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 907(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of Rule 4 of Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the Government of **Sikkim** hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulation, 1966, namely :-

1. (i) These regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Ninth Amendment Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "**Sikkim**" and the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely :-

**SIKKIM**

<b>SENIOR POSTS UNDER THE STATE GOVERNMENT</b>		<b>19</b>
Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)		01
Additional Principal Chief Conservator of Forests		01
Chief Conservator of Forests,		02

	Conservator of Forests (Territorial)	01
	Conservator of Forests (Soil Conservation)	01
	Conservator of Forests (Research and Development)	01
	Conservator of Forests (Wildlife)	01
	Conservator of Forests (Social Forestry)	01
	Deputy Conservator of Forests (Territorial) East, West, North, South	04
	Deputy Conservator of Forests (Wildlife) North East	02
	Deputy Conservator of Forests (Working Plan)	01
	Deputy Conservator of Forests (Soil Conservation)	02
	Technical Assistant to the CCF & Deputy Conservator of Forests	01
<b>1.</b>	<b>Total Senior Duty Posts</b>	<b>19</b>
<b>2.</b>	Central Deputation Reserve not exceeding 20% of Item 1 above	03
<b>3.</b>	State Deputation Reserve not exceeding 25% of Item 1 above	04
<b>4.</b>	Training Reserve not exceeding 3.5% of Item 1 above	01
<b>5.</b>	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	03
<b>6.</b>	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules 1966 not exceeding 33 1/3% of Item 1, 2, 3 and 4 above	<b>09</b>
<b>7.</b>	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Item 1+2+3+4+5-6)	<b>21</b>
	<b>Total Authorized Strength (Sl.No.6 + 7 above)</b>	<b>30</b>

[F. No. 16016/03/2009-AIS-II(A)]

HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note 1:** Prior to issue of this notification, the total authorized strength of the IFS cadre of Sikkim was 30.

**Note 2:** The Principal Regulations were notified vide notification No.6/1/66-AIS(IV), dated 30.10.1966 as GSR No.1672 in the Extraordinary Gazette of India dated 31.10.1966 and Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 have been amended, vide GSR Nos. given below:

S. No.	GSR No.	Date of Publication	S. No.	GSR No.	Date of Publication
1	1673	30.10.66	6	1083	8.6.68
2	17	7.1.67	7	1887	9.8.69
3	653	6.5.67	8	80	17.1.70
4	654	6.5.67	9	485	21.3.70
5	689	13.5.67	10	545	4.4.70

11	1802	24.10.70	56.	778(E)	31.5.82
12	135	24.1.75	57.	530(E)	20.8.82
13	136	24.1.71	58.	24E	12.1.83
14	665	8.5.71	59.	126(E)	28.2.85
15	45(E)	20.1.72	60.	308(E)	26.3.85
16	47(E)	20.1.72	61.	327E	29.3.85
17	48(E)	20.1.72	62.	489E	12.6.85
18.	478(E)	4.12.72	63.	266	12.4.86
19.	192(E)	2.4.73	64.	654	30.8.86
20.	321(E)	27.6.73	65.	763.	20.9.86
21.	391(E)	10.8.73	66.	798.	27.9.86
22.	142	24.1.71	67.	796	27.9.86
23.	28(E)	8.5.71	68.	835	4.10.86
24.	273(E)	11.1.72	69.	837	4.10.86
25.	300(E)	20.1.72	70.	880	18.10.86
26.	812	29.4.72	71.	164	14.3.87
27.	2227	16.8.75	72.	407	30.5.87
28.	71	17.1.76	73.	619	15.3.87
29.	407(E)	16.6.76	74.	802	31.10.87
30.	1064	24.7.76	75.	826	7.11.87
31.	444 (E)	6.7.76	76.	835	14.10.87
32.	750 (E)	3.8.76	77.	836	14.11.87
33.	93 (E)	26.2.77	78.	432E	6.4.88
34.	631 (E)	5.10.77	79.	546E	4.5.88
35.	13 (E)	6.1.78	80.	834E	3.8.88
36.	360(E)	13.7.78	81.	352E	10.3.89
37.	436(E)	29.8.78	82.	553E	16.5.89
38.	486(E)	25.8.80	83.	455	1.7.89
39.	562(E)	30.9.80	84.	832	11.11.89
40.	626E	3.11.80	85.	916	16.12.89
41.	631E	4.11.80	86.	933	30.12.89
42.	21E	17.1.81	87.	590	22.9.90
43.	31E	23.1.81	88.	603	29.9.90
44.	84(E)	27.2.81	89.	728	8.12.90
45.	456(E)	9.5.81	90.	730	8.12.90
46.	360(E)	23.5.81	91.	125(E)	5.3.91
47.	276(E)	2.6.81	92.	246	13.4.91
48.	386(E)	9.6.81	93.	473	24.8.91
49.	602(E)	16.11.81	94.	527	14.9.91
50.	604(E)	17.11.81	95.	565	5.10.91
51.	653(E)	10.12.81	96.	584	19.10.91
52.	657(E)	11.12.81	97.	538(E)	6.8.93
53.	294(E)	1.4.82	98.	685(E)	4.11.93
54.	354(E)	26.4.82	99.	687(E)	4.11.93
55.	356(E)	27.4.82	100.	514	22.10.94

101.	513	22.10.94	131	139	27.4.2002
102.	321E	31.3.95	132	145	27.4.2002
103.	213	29.4.95	133	147	27.4.2002
104.	278	10.6.95	134	372	21.9.2002
105.	264	6.6.95	135	173	26.4.2003
106.	339	22.7.95	136	34 (E)	24.01.2006
107.	375	12.8.95	137	287(E)	16.05.2006
108.	480	18.11.95	138	289 (E)	16.05.2006
109.	479	18.11.95	139	562(E)	15.09.2006
110.	503	2.12.95	140	564(E)	15.09.2006
111.	537	9.12.95	141	566(E)	15.09.2006
112.	75E	5.2.96	142	724(E)	23.11.2006
113.	77E	5.2.96	143	703(E)	12.08.2007
114.	231	8.6.96	144	765(E)	12.12.2007
115.	233	8.6.96	145	609(E)	26.08.2008
116.	589E	26.12.96	146	109(E)	21.02.2008
117.	587E	26.12.96	147	610(E)	26.08.2008
118.	585E	26.12.96	148	716(E)	03.10.2008
119.	17E	17.1.97	149	748(E)	21.10.2008
120.	413	20.12.97	150	190(E)	24.03.2009
121.	741E	31.12.97	151	193(E)	24.03.2009
122.	40	29.1.98	152	498(E)	07.07.2009
123.	617E	14.1.98	153	500(E)	07.07.2009
124.	372	10.12.99	154	502(E)	07.07.2009
125.	374	10.12.99	155	504(E)	07.07.2009
126.	824E	21.10.2000	156	506(E)	07.07.2009
127.	827E	21.10.2000			
128.	830E	21.10.2000			
129.	141	27.4.2002			
130.	143	27.4.2002			

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 908(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिविकिज्म सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (i) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियमावली, 2009 है ।  
(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

(क) अनुसूची II-क में "राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में" तालिका के प्रथम कॉलम की 'सिविकिज्म' प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

## सिविकिज्म

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सेवा प्रमुख)	रुपए 80,000/- (नियत)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	रुपए एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/-
मुख्य वन संरक्षक	रुपए पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
वन संरक्षक (प्रादेशिक)	रुपए पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
मुख्य वन संरक्षक (भूमि संरक्षण)	रुपए पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान और विकास)	रुपए पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक (वन्यजीव)	रुपए पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	रुपए पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-

(ख) अनुसूची II-भाग ख में – समय वेतनमान में, वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, वेतन वाले पद, 'सिक्किम' प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
उप वन संरक्षक (वन्यजीव), उत्तर पूर्व
उप वन संरक्षक (कार्ययोजना)
उप वन संरक्षक (भूमि संरक्षण)
मुख्य वन संरक्षक के तकनीकी सहायक और उप वन संरक्षक

[ फा. सं. 16016/03/2009-अ.भा.से.-II (ख) ]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 21.02.2008 की सा.का.नि. संख्या 109 (अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 27.9.2008 की सा.का.नि. सं. 691(अ) तथा दिनांक 20.8.2009 की सा.का.नि. सं. 588(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे :-

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 908(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Sikkim hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, namely: -

- (i) These Rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. In The Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007: -

(a) In "Schedule II-A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments" in the Table, for the entry 'Sikkim' appearing in the first column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted, namely: -



**Sikkim**

Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)	Rs.80,000/-(fixed)
Additional Principal Chief Conservator of Forests	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Chief Conservator of Forests,	PB-4 + GP Rs.10,000/-
Conservator of Forests (Territorial)	PB-4 + GP Rs.8,900/-
Conservator of Forests (Soil Conservation)	PB-4 + GP Rs.8,900/-
Conservator of Forests (Research and Development)	PB-4 + GP Rs.8,900/-
Conservator of Forests (Wildlife)	PB-4 + GP Rs.8,900/-
Conservator of Forests (Social Forestry)	PB-4 + GP Rs.8,900/-

(b) In Schedule-II Part-B: Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale for the entry 'Sikkim', the following shall be substituted, namely:-

Deputy Conservator of Forests (Territorial) East, West, North, South
Deputy Conservator of Forests (Wildlife) North East
Deputy Conservator of Forests (Working Plan)
Deputy Conservator of Forests (Soil Conservation)
Technical Assistant to the CCF & Deputy Conservator of Forests

[F.No. 16016/03/2009-AIS-II(B)]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note:** The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No.109(E) dated the 21.02.2008 and subsequently were amended vide GSR No.691(E) dated 27.09.2008 and GSR No. 588(E) dated 20.08.2009.

## अधिमूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 909(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (1), जो भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में अगले संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : -

1. (i) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियमावली, 2008 कहा जाएगा ।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में “आंध्र प्रदेश” शीर्षक के लिए और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

## आंध्र प्रदेश

1.	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ इयूटी पद	91
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख)	01
	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन	01
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	01
	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	01

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता)	01
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)	01
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	01
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	01
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	01
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम)	01
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन विकास एजेंसी एवं सामुदायिक वन प्रबंधन)	01
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	01
मुख्य वन संरक्षक (विकास)	01
मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	01
मुख्य वन संरक्षक (सामुदायिक वन प्रबंधन)	01
मुख्य वन संरक्षक (स्थापना)	01
मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता)	01
मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	01
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना)	01
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	01
मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम)	01
मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी)	01
मुख्य वन संरक्षक (सी.एस.एस. एवं एफ.डी.ए.)	
वन संरक्षक, अनंतपुर सर्किल	01
वन संरक्षक, कुर्नूल सर्किल	01
वन संरक्षक, राजमंदरी सर्किल	01
वन संरक्षक, गुंटूर सर्किल	01
वन संरक्षक, विशाखापट्टणम सर्किल	01
वन संरक्षक, खम्मम सर्किल	01
वन संरक्षक, वारंगल सर्किल	01
वन संरक्षक, अदीलाबाद सर्किल	01
वन संरक्षक, निजामाबाद सर्किल	01
वन संरक्षक, स्टेट ट्रेडिंग सर्किल, हैदराबाद	01

वन संरक्षक, वन्यजीव प्रबंध सर्किल, हैदराबाद	01
वन संरक्षक, आर. एंड टी. सर्किल, हैदराबाद	01
वन संरक्षक, हैदराबाद सर्किल	01
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, हैदराबाद	01
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, विजयवाड़ा	01
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, कडापा	01
वन संरक्षक, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा प्रचार सर्किल, हैदराबाद	01
फील्ड डायरेक्टर, बाघ परियोजना, श्रीसाइलम	01
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, वारंगल	01
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, विशाखापट्टणम	01
वन संरक्षक, वन्यजीव प्रबंध सर्किल, तिरुपति	01
वन संरक्षक (सतर्कता), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आंध्र प्रदेश कार्यालय, हैदराबाद	01
निदेशक, आंध्र प्रदेश वन अकादमी, दुलापल्ली	01
उप वन संरक्षक (प्रभाग) अनन्तपुर, चित्तूर पूर्व वन्य जीव, चित्तूर पश्चिम वन्यजीव, आत्माकुर वन्यजीव, नांदयाल वन्यजीव, कडापा, राजमवेट वन्यजीव, गुंटूर, मर्कापुर वन्यजीव, नेल्लूर, काकीनाडा, एलूरु, विशाखापट्टणम, नरसीपट्टणम, पेडूरु, श्रीकाकुलम, हैदराबाद, महबूब नगर, निजामाबाद, कामारेड्डी, कागजनगर, वेल्लमपल्ली, मांचेरियल, निर्मल, अदीलाबाद, वारंगल उत्तर, वारंगल दक्षिण, करीमनगर पूर्व, करीमनगर पश्चिम, खम्मम, भद्राचलम उत्तर, भद्राचलम दक्षिण, पलोचा, कोठागुडेम	34
स्टेट सिल्विकल्चरिस्ट, हैदराबाद	01
स्टेट सिल्विकल्चरिस्ट, तिरुपति	01
क्यूरेटर, नेहरू प्राणिविज्ञान उद्यान, हैदराबाद	01
वन उपयोगिता अधिकारी, हैदराबाद	01
वन जीन विज्ञानी वारंगल	01
उप वन संरक्षक (एम.आई.एस), प्रधान मुख्य वन संरक्षक आंध्र प्रदेश कार्यालय, हैदराबाद	01
क्यूरेटर, इंदिरा गांधी प्राणिविज्ञान उद्यान, विशाखापट्टणम	01
क्यूरेटर, श्रीवेंकटेश्वर प्राणिविज्ञान उद्यान, तिरुपति	01

	प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गुंटूर	01
	प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हैदराबाद	01
	प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, विशाखापट्टणम	
1.	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	91
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 20% से अधिक नहीं	18
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25% की दर से से अधिक नहीं	22
4.	प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5% की दर से से अधिक नहीं	03
5.	अवकाश रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं	15
6.	भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33-1/3% से अधिक नहीं	44
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1+2+3+4+5-6)	105
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	149

[फा. सं. 16016/01/2009-अ.भा.से.-II (क)]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

डेस्क अधिकारी

टिप्पणी 1 :— इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, आंध्र प्रदेश के भारतीय वन सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 139 थी ।

टिप्पणी 2 :— मुख्य विनियम दिनांक 30.10.1966 की अधिसूचना संख्या 6/1/66-अ.भा.से.(IV) द्वारा सा.का.नि. संख्या 1672 के रूप में दिनांक 31.10.1966 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए :-

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	प्रकाशन की तारीख
1	1673	30.10.66	36.	360(अ)	13.7.78
2	17	7.1.67	37.	436(अ)	29.8.78
3	653	6.5.67	38.	486(अ)	25.8.80
4	654	6.5.67	39.	562(अ)	30.9.80
5	689	13.5.67	40.	626अ	3.11.80
6	1083	8.6.68	41.	631अ	4.11.80
7	1887	9.8.69	42.	21अ	17.1.81
8	80	17.1.70	43.	31अ	23.1.81
9	485	21.3.70	44.	84(अ)	27.2.81
10	545	4.4.70	45.	456(अ)	9.5.81
11	1802	24.10.70	46.	360(अ)	23.5.81
12	135	24.1.75	47.	276(अ)	2.6.81
13	136	24.1.71	48.	386(अ)	9.6.81
14	665	8.5.71	49.	602(अ)	16.11.81
15	45(अ)	20.1.72	50.	604(अ)	17.11.81
16	47(अ)	20.1.72	51.	653(अ)	10.12.81
17	48(अ)	20.1.72	52.	657(अ)	11.12.81
18.	478(अ)	4.12.72	53.	294(अ)	1.4.82
19.	192(अ)	2.4.73	54.	354(अ)	26.4.82
20.	321(अ)	27.6.73	55.	356(अ)	27.4.82
21.	391(अ)	10.8.73	56.	778(अ)	31.5.82
22.	142	24.1.71	57.	530(अ)	20.8.82
23.	28(अ)	8.5.71	58.	24अ	12.1.83
24.	273(अ)	11.1.72	59.	126(अ)	28.2.85
25.	300(अ)	20.1.72	60.	308(अ)	26.3.85
26.	812	29.4.72	61.	327अ	29.3.85
27.	2227	16.8.75	62.	489अ	12.6.85
28.	71	17.1.76	63.	266	12.4.86
29.	407(अ)	16.6.76	64.	654	30.8.86
30.	1064	24.7.76	65.	763	20.9.86
31.	444 (अ)	6.7.76	66.	798	27.9.86
32.	750 (अ)	3.8.76	67.	796	27.9.86
33.	93 (अ)	26.2.77	68.	835	4.10.86
34.	631 (अ)	5.10.77	69.	837	4.10.86
35.	13 (अ)	6.1.78	70.	880	18.10.86

71.	164	14.3.87	104.	278	10.6.95
72.	407	30.5.87	105.	264	6.6.95
73.	619	15.3.87	106.	339	22.7.95
74.	802	31.10.87	107.	375	12.8.95
75.	826	7.11.87	108.	480	18.11.95
76.	835	14.10.87	109.	479	18.11.95
77.	836	14.11.87	110.	503	2.12.95
78.	432अ	6.4.88	111.	537	9.12.95
79.	546अ	4.5.88	112.	75अ	5.2.96
80.	834अ	3.8.88	113.	77अ	5.2.96
81.	352अ	10.3.89	114.	231	8.6.96
82.	553अ	16.5.89	115.	233	8.6.96
83.	455	1.7.89	116.	589अ	26.12.96
84.	832	11.11.89	117.	587अ	26.12.96
85.	916	16.12.89	118.	585अ	26.12.96
86.	933	30.12.89	119.	17अ	17.1.97
87.	590	22.9.90	120.	413	20.12.97
88.	603	29.9.90	121.	741अ	31.12.97
89.	728	8.12.90	122.	40	29.1.98
90.	730	8.12.90	123.	617अ	14.1.98
91.	125(अ)	22.7.95	124.	372	10.12.99
92.	246	12.8.95	125.	374	10.12.99
93.	473	18.11.95	126.	824अ	21.10.2000
94.	527	18.11.95	127.	827अ	21.10.2000
95.	565	2.12.95	128.	830अ	21.10.2000
96.	584	9.12.95	129.	141	27.4.2002
97.	538(अ)	5.2.96	130.	143	27.4.2002
98.	685(अ)	5.2.96	131.	139	27.4.2002
99.	687(अ)	8.6.96	132.	145	27.4.2002
100.	514	8.6.96	133.	147	27.4.2002
101.	513	22.10.94	134.	372	21.9.2002
102.	321अ	31.3.95	135.	173	26.4.2003
103.	213	29.4.95	136.	34 (अ)	24.01.2006
104.	278	10.6.95	137.	287(अ)	16.05.2006
105.	264	6.6.95	138.	289 (अ)	16.05.2006
106.	339	22.7.95	139.	562(अ)	15.09.2006
107.	375	12.8.95	140.	564(अ)	15.09.2006
108.	480	18.11.95	141.	566(अ)	15.09.2006
101.	513	22.10.94	142.	724(अ)	23.11.2006
102.	321अ	31.3.95	143.	703(अ)	12.08.2007
103.	213	29.4.95	144.	765(अ)	12.12.2007

145	609 (3T)	26.08.2008	151	193(3T)	24.03.2009
146	109(3T)	21.02.2008	152	498(3T)	07.07.2009
147	610(3T)	26.08.2008	153	500(3T)	07.07.2009
148	716(3T)	03.10.2008	154	502(3T)	07.07.2009
149	748(3T)	21.10.2008	155	504(3T)	07.07.2009
150	190(3T)	24.03.2009	156	506(3T)	07.07.2009

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

**G.S.R. 909(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 the Central Government in consultation with the Government of **Andhra Pradesh** hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 namely:-

1. (i) These Regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Tenth Amendment Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Indian Forest Service ((Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "**Andhra Pradesh**" and the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely:-

**ANDHRA PRADESH**

<b>Senior Duty Posts under the State Government</b>	<b>91</b>
Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)	1
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) & Chief Wild Life Warden	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Production)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Vigilance)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Development)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(HRD)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Research)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Wildlife)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Forest Conservation Act)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Forest Development Agencies & Community Forest Management)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Social Forestry)	1



Chief Conservator of Forests (Development)	1
Chief Conservator of Forests (Social Forestry)	1
Chief Conservator of Forests (Community Forest Management)	1
Chief Conservator of Forests (Establishment)	1
Chief Conservator of Forests (Vigilance)	1
Chief Conservator of Forests (HRD)	1
Chief Conservator of Forests (Working Plan)	1
Chief Conservator of Forests (Production)	1
Chief Conservator of Forests (Forest Conservation Act)	1
Chief Conservator of Forests (IT)	1
Chief Conservator of Forests (CSS & FDA)	1
Conservator of Forests, Anantapur Circle	1
Conservator of Forests, Kurnool Circle	1
Conservator of Forests, Rajamundry Circle	1
Conservator of Forests, Guntur Circle	1
Conservator of Forests, Visakhapatnam Circle	1
Conservator of Forests, Khammam Circle	1
Conservator of Forests, Warangal Circle	1
Conservator of Forests, Adilabad Circle	1
Conservator of Forests, Nizamabad Circle	1
Conservator of Forests, State Trading Circle, Hyderabad	1
Conservator of Forests, Wildlife Management Circle, Hyderabad	1
Conservator of Forests, R&T Circle, Hyderabad	1
Conservator of Forests, Hyderabad Circle	1
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Hyderabad	1
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Vijayawada	1
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Kadapa	1
Conservator of Forests, Monitoring & Evaluation and Publicity Circle, Hyderabad	1
Field Director, Project Tiger, Srisailem	1
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Warangal	1
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Visakhapatnam	1
Conservator of Forests, Wildlife Management Circle, Tirupati	1
Conservator of Forests, (Vigilance), O/o PCCF, A.P., Hyderabad	1
Director, A.P. Forest Academy, Dulapalli	1
Deputy Conservator of Forests (Divisions) Anantapur, Chittoor East Wildlife, Chittoor West Wildlife, Atmakur Wildlife, Nandyal Wildlife, Kadapa, Rajampet Wildlife, Guntur, Markapur Wildlife, Nellore, Kakinada, Eluru, Visakhapatnam, Narsipatnam, Paderu, Sriakulam, Hyderabad, Mahabubnagar, Nizamabad, Kamareddy, Kagaznagar, Bellampalli, Mancherla, Nirmal, Adilabad, Warangal North, Warangal South, Karimnagar East, Karimnagar West, Khammam, Bhadrachalam North, Bhadrachalam South, Paloncha, Kothagudem	34
State Silviculturist, Hyderabad	1

	State Silviculturist, Tirupathi	1
	Curator, Nehru Zoological Park, Hyderabad	1
	Forest Utilization Officer, Hyderabad	1
	Forest Geneticist, Warangal	1
	Deputy Conservator of Forests (MIS), O/o PCCF, AP, Hyderabad	1
	Curator, Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam	1
	Curator, Sri Venkateswara Zoological Park, Tirupathi	1
	Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Guntur	1
	Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Hyderabad	1
	Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Visakhapatnam	1
<b>(1)</b>	<b>Total Senior Duty Posts</b>	<b>91</b>
<b>(2)</b>	Central Deputation Reserve not exceeding 20 % of Item 1 above	18
<b>(3)</b>	State Deputation Reserve not exceeding 25 % of Item 1 above	22
<b>(4)</b>	Training Reserve not exceeding 3.5 % of Item 1 above	3
<b>(5)</b>	Leave Reserve and Junior Post Reserve not exceeding 16.5 % of Item 1 above	15
<b>(6)</b>	Posts to be filled by Promotion under Rule 9 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 not exceeding 33.3% of items 1,2,3 & 4 above	44
<b>(7)</b>	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5 – 6 above)	105
	<b>Total Authorized Strength (Items 6 + 7 above)</b>	<b>149</b>

[F. No. 160/6/01/2009-AIS-II(A)]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note-1:**—Prior to the issue of this Notification, the total authorized strength of the IFS Cadre of Andhra Pradesh was 139.

**Note 2:**—The Principal Regulations were notified vide notification No.6/1/66-AIS(IV), dated 30.10.1966 as GSR No.1672 in the Extraordinary Gazette of India dated 31.10.1966 and Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 have been amended, vide GSR Nos. given below:

S. No.	GSR No.	Date of Publication	S. No.	GSR No.	Date of Publication
1	1673	30.10.66	7	1887	9.8.69
2	17	7.1.67	8	80	17.1.70
3	653	6.5.67	9	485	21.3.70
4	654	6.5.67	10	545	4.4.70
5	689	13.5.67	11	1802	24.10.70
6	1083	8.6.68	12	135	24.1.75

13	136	24.1.71	61.	327E	29.3.85
14	665	8.5.71	62.	489E	12.6.85
15	45(E)	20.1.72	63.	266	12.4.86
16	47(E)	20.1.72	64.	654	30.8.86
17	48(E)	20.1.72	65.	763	20.9.86
18.	478(E)	4.12.72	66.	798	27.9.86
19.	192(E)	2.4.73	67.	796	27.9.86
20.	321(E)	27.6.73	68.	835	4.10.86
21.	391(E)	10.8.73	69.	837	4.10.86
22.	142	24.1.71	70.	880	18.10.86
23.	28(E)	8.5.71	71.	164	14.3.87
24.	273(E)	11.1.72	72.	407	30.5.87
25.	300(E)	20.1.72	73.	619	15.3.87
26.	812	29.4.72	74.	802	31.10.87
27.	2227	16.8.75	75.	826	7.11.87
28.	71	17.1.76	76.	835	14.10.87
29.	407(E)	16.6.76	77.	836	14.11.87
30.	1064	24.7.76	78.	432E	6.4.88
31.	444 (E)	6.7.76	79.	546E	4.5.88
32.	750 (E)	3.8.76	80.	834E	3.8.88
33.	93 (E)	26.2.77	81.	352E	10.3.89
34.	631 (E)	5.10.77	82.	553E	16.5.89
35.	13 (E)	6.1.78	83.	455	1.7.89
36.	360(E)	13.7.78	84.	832	11.11.89
37.	436(E)	29.8.78	85.	916	16.12.89
38.	486(E)	25.8.80	86.	933	30.12.89
39.	562(E)	30.9.80	87.	590	22.9.90
40.	626E	3.11.80	88.	603	29.9.90
41.	631E	4.11.80	89.	728	8.12.90
42.	21E	17.1.81	90.	730	8.12.90
43.	31E	23.1.81	91.	125(E)	5.3.91
44.	84(E)	27.2.81	92.	246	13.4.91
45.	456(E)	9.5.81	93.	473	24.8.91
46.	360(E)	23.5.81	94.	527	14.9.91
47.	276(E)	2.6.81	95.	565	5.10.91
48.	386(E)	9.6.81	96.	584	19.10.91
49.	602(E)	16.11.81	97.	538(E)	6.8.93
50.	604(E)	17.11.81	98.	685(E)	4.11.93
51.	653(E)	10.12.81	99.	687(E)	4.11.93
52.	657(E)	11.12.81	100.	514	22.10.94
53.	294(E)	1.4.82	101.	513	22.10.94
54.	354(E)	26.4.82	102.	321E	31.3.95
55.	356(E)	27.4.82	103.	213	29.4.95
56.	778(E)	31.5.82	104.	278	10.6.95
57.	530(E)	20.8.82	105.	264	6.6.95
58.	24E	12.1.83	106.	339	22.7.95
59.	126(E)	28.2.85	107.	375	12.8.95
60.	308(E)	26.3.85	108.	480	18.11.95

109	479	18.11.95	133	147	27.4.2002
110	503	2.12.95	134	372	21.9.2002
111	537	9.12.95	135	173	26.4.2003
112	75E	5.2.96	136	34 (E)	24.01.2006
113	77E	5.2.96	137	287(E)	16.05.2006
114	231	8.6.96	138	289 (E)	16.05.2006
115	233	8.6.96	139	562(E)	15.09.2006
116	589E	26.12.96	140	564(E)	15.09.2006
117	587E	26.12.96	141	566(E)	15.09.2006
118	585E	26.12.96	142	724(E)	23.11.2006
119	17E	17.1.97	143	703(E)	12.08.2007
120	413	20.12.97	144	765(E)	12.12.2007
121	741E	31.12.97	145	609(E)	26.08.2008
122	40	29.1.98	146	109(E)	21.02.2008
123	617E	14.1.98	147	610(E)	26.08.2008
124	372	10.12.99	148	716(E)	03.10.2008
125	374	10.12.99	149	748(E)	21.10.2008
126	824E	21.10.2000	150	190(E)	24.03.2009
127	827E	21.10.2000	151	193(E)	24.03.2009
128	830E	21.10.2000	152	498(E)	07.07.2009
129	141	27.4.2002	153	500(E)	07.07.2009
130	143	27.4.2002	154	502(E)	07.07.2009
131	139	27.4.2002	155	504(E)	07.07.2009
132	145	27.4.2002	156	506(E)	07.07.2009

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 910(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवाएं (वेतन) नियमावली, 2007 में अगले संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) ये नियम भारतीय वन सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियमावली, 2009 कहे जाएंगे ।
- (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-

(क) अनुसूची III-क में "राज्य सरकार के अंतर्गत भारतीय वन सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों के संबंध में" तालिका के प्रथम कॉलम की 'आंध्र प्रदेश' प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे और तीसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

## आंध्र प्रदेश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का प्रमुख)	रुपए 80,000/- (नियत)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन	एच.ए.जी.+ : रुपए 75000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 80000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)

	79000/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन विकास एजेंसी एवं सामुदायिक वन प्रबंधन)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	एच.ए.जी. वेतनमान रुपए 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79000/
मुख्य वन संरक्षक (विकास)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (सामुदायिक वन प्रबंधन)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (स्थापना)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-

मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण अधिनियम)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
मुख्य वन संरक्षक (सी.एस.एस. एवं एफ.डी.ए.)	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 10,000/-
वन संरक्षक, अनंतपुर सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, कुर्नूल सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, राजमंदरी सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, गुंटूर सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, विशाखापट्टणम सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, खम्मम सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, वारंगल सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, अदीलाबाद सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, निजामाबाद सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, स्टेट ट्रेडिंग सर्किल, हैदराबाद	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, वन्यजीव प्रबंध सर्किल, हैदराबाद	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, आर. एंड टी. सर्किल, हैदराबाद	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, हैदराबाद सर्किल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, हैदराबाद	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, विजयवाड़ा	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, कडापा	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा प्रचार सर्किल, हैदराबाद	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
फील्ड डायरेक्टर, बाघ परियोजना, श्रीसाइलम	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, वारंगल	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, एस.एफ. एंड वर्किंग प्लान सर्किल, विशाखापट्टणम	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक, वन्यजीव प्रबंध सर्किल, तिरुपति	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
वन संरक्षक (सतर्कता), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आंध्र प्रदेश कार्यालय, हैदराबाद	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-
निदेशक, आंध्र प्रदेश वन अकादमी, दुलापल्ली	पी.बी.4 + जी.पी. रुपए 8,900/-

(ख) अनुसूची III-ख में – समय वेतनमान में, वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वेतन वाले पदों के संबंध में 'आंध्र प्रदेश' प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :-

उप वन संरक्षक (प्रभाग)
अनन्तपुर, चित्तूर पूर्व वन्य जीव, चित्तूर पश्चिम वन्यजीव, आत्माकुर वन्यजीव, नांदयाल वन्यजीव, कडापा, राजमवेट वन्यजीव, गुंटूर, मर्कापुर वन्यजीव, नेल्लूर, काकीनाडा, एलूरु, विशाखापट्टणम, नरसीपट्टणम, पेडूरु, श्रीकाकुलम, हैदराबाद, महबूब नगर, निजामाबाद, कामारेड्डी, कागजनगर, वेल्लमपल्ली, मांचेरियल, निर्मल, अदीलाबाद, वारंगल उत्तर, वारंगल दक्षिण, करीमनगर पूर्व, करीमनगर पश्चिम, खम्मम, भद्राचलम उत्तर, भद्राचलम दक्षिण, पलोचा, कोठागुडेम
स्टेट सिल्विकल्चरिस्ट, हैदराबाद
स्टेट सिल्विकल्चरिस्ट, तिरुपति
क्यूरेटर, नेहरू प्राणिविज्ञान उद्यान, हैदराबाद
वन उपयोगिता अधिकारी, हैदराबाद
वन जीन विज्ञानी वारंगल
उप वन संरक्षक (एम.आई.एस), प्रधान मुख्य वन संरक्षक आंध्र प्रदेश कार्यालय, हैदराबाद
क्यूरेटर, इंदिरा गांधी प्राणिविज्ञान उद्यान, विशाखापट्टणम
क्यूरेटर, श्रीवेंकटेश्वर प्राणिविज्ञान उद्यान, तिरुपति
प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गुंटूर
प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हैदराबाद
प्रभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, विशाखापट्टणम

[फा. सं. 16016/01/2009-अ.भा.से.-II (ख)]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी



टिप्पणी.— मुख्य नियम दिनांक 21.02.2008 की सा.का.नि. संख्या 109(ई) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में उसमें दिनांक 27.09.2008 की सा.का.नि. सं. 691(ई) तथा दिनांक 20.08.2009 की सा.का.नि. सं. 588(ई) द्वारा संशोधन किए गए ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 910(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 namely:-

1. (i) These Rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Tenth Amendment Rules, 2009.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007:-  
(a) In "Schedule II- A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments" in the Table, for the entry 'Andhra Pradesh' appearing in the first column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted, namely:

**ANDHRA PRADESH**

Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)	Rs 80,000/- (Fixed)
Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) & Chief Wild Life Warden	HAG+:Rs.75500 (Annual increment @ 3%)-Rs.80000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration)	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Production)	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Vigilance)	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Development)	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests(HRD)	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Research)	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Wildlife)	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Forest Conservation Act)	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests(Forest Development Agencies & Community Forest Management)	HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/-

Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry)	HAG Scale: Rs.67000 (annual increment @ 3%) 79000/-
Chief Conservator of Forests (Development)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Social Forestry)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Community Forest Management)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Establishment)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Vigilance)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (HRD)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Working Plan)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Production)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Forest Conservation Act)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (IT)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (CSS & FDA)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Conservator of Forests, Anantapur Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Kurnool Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Rajahmundry Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Guntur Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Visakhapatnam Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Khammam Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Warangal Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Adilabad Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Nizamabad Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, State Trading Circle, Hyderabad	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, 'Wildlife Management Circle, Hyderabad	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, R&T Circle, Hyderabad	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Hyderabad Circle	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Hyderabad	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Vijayawada	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Kadapa	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Monitoring & Evaluation and Publicity Circle, Hyderabad	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Field Director, Project Tiger, Srisailem	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Warangal	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, SF & Working Plan Circle, Visakhapatnam	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Wildlife Management Circle, Tirupati	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, (Vigilance), O/o PCCF, A.P., Hyderabad	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Director, A.P. Forest Academy, Dullapalli	PB-4+GP-Rs 8900/-

(b) In Schedule-II B: Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the entry 'Andhra Pradesh', the following shall be substituted, namely:

Deputy Conservator of Forests - (Divisions)
Anantapur, Chittoor East Wildlife, Chittoor West Wildlife, Atmakur Wildlife, Nandyal Wildlife, Kadapa, Rajampet Wildlife, Guntur, Markapur Wildlife, Nellore, Kakinada, Eluru, Visakhapatnam, Narsipatnam, Paderu, Srikakulam, Hyderabad, Mahabubnagar, Nizamabad, Kamareddy, Kagaznagar, Bellampalli, Mancheri, Nirmal, Adilabad, Warangal North, Warangal South, Karimnagar East, Karimnagar West, Khammam, Bhadrachalam North, Bhadrachalam South, Paloncha, Kothagudem
State Silviculturist, Hyderabad
State Silviculturist, Tirupathi
Curator, Nehru Zoological Park, Hyderabad
Forest Utilization Officer, Hyderabad
Forest Geneticist, Warangal
Deputy Conservator of Forests (MIS), O/o PCCF, AP, Hyderabad
Curator, Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam
Curator, Sri Venkateswara Zoological Park, Tirupathi
Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Guntur
Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Hyderabad
Divisional Forest Officer, Social Forestry Division, Visakhapatnam

[E. No. 16016/01/2009-AIS-II(B)]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

Note:—The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No.109(E) dated the 21.02.2008 and subsequently were amended vide GSR No.691(E) dated 27.09.2008 and GSR No. 588(E) dated 20.08.2009.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 911(अ).— भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम 2 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) ये विनियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियमावली, 2009 कहे जाएंगे ।
- (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में, 'तमिलनाडु' शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

## तमिलनाडु

राज्य सरकार के अन्तर्गत वरिष्ठ ड्यूटी पद	90
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सेवा का प्रमुख), चेन्नै	1
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव वाईन	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनीकरण)	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और निदेशक, टीएनएफए, कोयम्बटूर	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षक अधिनियम)	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक और सतर्कता)	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आयोजना और बजटिंग)	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वनीकरण और विस्तार)	1

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	1
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना)	1
मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण)	1
मुख्य वन संरक्षक (सीडीएम)	1
मुख्य वन संरक्षक और निदेशक, एएजेडीपी	1
मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, अन्नामलाई टाईगर रिजर्व	1
मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, कलाकाड मुनदानधुरै टाईगर रिजर्व	1
मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, मुदुमलाई टाईगर रिजर्व	1
मुख्य वन संरक्षक (वन समेकन)	1
मुख्य वन संरक्षक (वन उपयोग)	1
मुख्य वन संरक्षक (वानिकी विस्तार)	1
मुख्य वन संरक्षक (जीआईएस)	1
मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)	1
मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	1
मुख्य वन संरक्षक (योजना और विकास)	1
मुख्य वन संरक्षक और प्रधानाचार्य, टीएनएफटीसी वाईगाई बांध	1
मुख्य वन संरक्षक (परियोजना निर्माण)	1
मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा)	1
मुख्य वन संरक्षक (प्रचार)	1
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	1
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	1
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, कोयम्बटूर	1
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, सेलम	1
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, त्रिचची	1
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, वेल्लोर	1
वन संरक्षक और अपर निदेशक, एएजेडपी	1
वन संरक्षक, आनुवंशिकी, कोयम्बटूर	1
वन संरक्षक, योजना और विकास	1
वन संरक्षक, अनुसंधान	1
वन संरक्षक, (टेरिटोरियल) चेन्नै, कोयम्बटूर, धर्मापुरी, डिन्डीगुल, इरोड, मदुरै, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर	12
उप वन संरक्षक और उप निदेशक, एएजेडपी	1
उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, मदुरै	1
उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, तिरुनेलवेली	1

	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, त्रिचची	1
	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, वेल्लोर	1
	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, विरुधुनगर	1
	उप वन संरक्षक, (टेरिटोरियल) अत्तुर, कोयम्बटूर, धर्मापुरी, डिन्डीगुल, इरोड, गुदालुर, हरूर, होसुर, कल्लाकुरुची, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कोडाइकनाल, मदुरै, नमक्काल, नीलगिरी (उत्तर), निलगिरी (दक्षिण), पुडुकोट्टाई, सैलम, सत्यमंगलम, सिवगंगाई, तंजावुर, थेनी, थुथुकुडी, तिरुनेलवेली, तिरुपत्तुर, तिरुवेल्लुर, तिरुवन्नामलाई, त्रिचची, वेल्लोर, विल्लुपुरम	30
	वन्यजीव वार्डन, चेन्नै	1
	वन्यजीव वार्डन, नागाई	1
	वन्यजीव वार्डन, रामानाथपुरम	1
(1)	कुल वरिष्ठ इयूटी पद	90
(2)	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं	18
(3)	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं	22
(4)	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	3
(5)	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद '1' के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं	14
(6)	भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं	44
(7)	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1+2+3+4+5-6)	103
	कुल प्राधिकृत संख्या (उपर्युक्त मद 6+7)	147

[फा. सं. 16016/04/2009-अ.भा.से.-II (क)।

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी-1:- इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व, तमिलनाडु के भारतीय वन सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 148 थी।

टिप्पणी-2:- मुख्य विनियम अधिसूचना सं. 6/1/66-अभा.से.(iv) तारीख 30.10.1966 द्वारा, साकानि सं. 1672 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 31.10.1966 में अधिसूचित किए गए और भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 को निम्नलिखित साकानि संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया है:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	प्रकाशन की तारीख
1	1673	30.10.66	41.	631अ	4.11.80
2	17	7.1.67	42.	21अ	17.1.81
3	653	6.5.67	43.	31अ	23.1.81
4	654	6.5.67	44.	84(अ)	27.2.81
5	689	13.5.67	45.	456(अ)	9.5.81
6	1083	8.6.68	46.	360(अ)	23.5.81
7	1887	9.8.69	47.	276(अ)	2.6.81
8	80	17.1.70	48.	386(अ)	9.6.81
9	485	21.3.70	49.	602(अ)	16.11.81
10	545	4.4.70	50.	604(अ)	17.11.81
11	1802	24.10.70	51.	653(अ)	10.12.81
12	135	24.1.75	52.	657(अ)	11.12.81
13	136	24.1.71	53.	294(अ)	1.4.82
14	665	8.5.71	54.	354(अ)	26.4.82
15	45(अ)	20.1.72	55.	356(अ)	27.4.82
16	47(अ)	20.1.72	56.	778(अ)	31.5.82
17	48(अ)	20.1.72	57.	530(अ)	20.8.82
18.	478(अ)	4.12.72	58.	24अ	12.1.83
19.	192(अ)	2.4.73	59.	126(अ)	28.2.85
20.	321(अ)	27.6.73	60.	308(अ)	26.3.85
21.	391(अ)	10.8.73	61.	327अ	29.3.85
22.	142	24.1.71	62.	489अ	12.6.85
23.	28(अ)	8.5.71	63.	266	12.4.86
24.	273(अ)	11.1.72	64.	654	30.8.86
25.	300(अ)	20.1.72	65.	763	20.9.86
26.	812	29.4.72	66.	798	27.9.86
27.	2227	16.8.75	67.	796	27.9.86
28.	71	17.1.76	68.	835	4.10.86
29.	407(अ)	16.6.76	69.	837	4.10.86
30.	1064	24.7.76	70.	880	18.10.86
31.	444 (अ)	6.7.76	71.	164	14.3.87
32.	750 (अ)	3.8.76	72.	407	30.5.87
33.	93 (अ)	26.2.77	73.	619	15.3.87
34.	631 (अ)	5.10.77	74.	802	31.10.87
35.	13 (अ)	6.1.78	75.	826	7.11.87
36.	360(अ)	13.7.78	76.	835	14.10.87
37.	436(अ)	29.8.78	77.	836	14.11.87
38.	486(अ)	25.8.80	78.	432अ	6.4.88
39.	562(अ)	30.9.80	79.	546अ	4.5.88
40.	626अ	3.11.80	80.	834अ	3.8.88

81.	352अ	10.3.89	119	173अ	17.1.97
82.	553अ	16.5.89	120	413	20.12.97
83.	455	1.7.89	121	741अ	31.12.97
84.	832	11.11.89	122	40	29.1.98
85.	916	16.12.89	123	617अ	14.1.98
86.	933	30.12.89	124	372	10.12.99
87.	590	22.9.90	125	374	10.12.99
88.	603	29.9.90	126	824अ	21.10.2000
89.	728	8.12.90	127	827अ	21.10.2000
90.	730	8.12.90	128	830अ	21.10.2000
91.	125(अ)	5.3.91			
92.	246	13.4.91	129	141	27.4.2002
93.	473	24.8.91	130	143	27.4.2002
94.	527	14.9.91	131	139	27.4.2002
95.	565	5.10.91	132	145	27.4.2002
96.	584	19.10.91	133	147	27.4.2002
97.	538(अ)	6.8.93	134	372	21.9.2002
98.	685(अ)	4.11.93	135	173	26.4.2003
99.	687(अ)	4.11.93	136	34 (अ)	24.01.2006
100.	514	22.10.94	137	287(अ)	16.05.2006
101.	513	22.10.94	138	289 (अ)	16.05.2006
102.	321अ	31.3.95	139	562(अ)	15.09.2006
103.	213	29.4.95	140	564(अ)	15.09.2006
104.	278	10.6.95	141	566(अ)	15.09.2006
105.	264	6.6.95	142	724(अ)	23.11.2006
106.	339	22.7.95	143	703(अ)	12.08.2007
107.	375	12.8.95	144	765(अ)	12.12.2007
108.	480	18.11.95	145	609(अ)	26.08.2008
109.	479	18.11.95	146	109(अ)	21.02.2008
110.	503	2.12.95	147	610(अ)	26.08.2008
111.	537	9.12.95	148	716(अ)	03.10.2008
112.	75अ	5.2.96	149	748(अ)	21.10.2008
113.	77अ	5.2.96	150	190(अ)	24.03.2009
114.	231	8.6.96	151	193(अ)	24.03.2009
115.	233	8.6.96	152	498(अ)	07.07.2009
116.	589अ	26.12.96	153	500(अ)	07.07.2009
117.	587अ	26.12.96	154	502(अ)	07.07.2009
118.	585अ	26.12.96	155	504(अ)	07.07.2009
			156	506(अ)	07.07.2009



## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 911(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 the Central Government in consultation with the Government of **Tamil Nadu** hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 namely:-

1. (i) These Regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Eleventh Amendment Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Indian Forest Service ((Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "**Tamil Nadu**" and the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely:-

**TAMIL NADU**

<b>Senior Duty Posts under the State Government</b>	<b>90</b>
Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force), Chennai	1
Principal Chief Conservator of Forests, Chief Wild Life Warden	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Afforestation)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests & Director, TNFA, Coimbatore	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Conservation Act)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Personnel & Vigilance)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Planning & Budgeting)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry & Extension)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	1
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan)	1

464898)09-7

Chief Conservator of Forests (Biodiversity Conservation)	1
Chief Conservator of Forests (CDM)	1
Chief Conservator of Forests & Director, AAZP	1
Chief Conservator of Forests & Field Director, Annamalai Tiger Reserve	1
Chief Conservator of Forests & Field Director, Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve	1
Chief Conservator of Forests & Field Director, Mudumalai Tiger Reserve	1
Chief Conservator of Forests (Forest Consolidation)	1
Chief Conservator of Forests (Forest Utilization)	1
Chief Conservator of Forests (Forestry Extension)	1
Chief Conservator of Forests (GIS)	1
Chief Conservator of Forests (Headquarters)	1
Chief Conservator of Forests (HRD)	1
Chief Conservator of Forests (Planning & Development)	1
Chief Conservator of Forests & Principal, TNFTC Vaigai Dam	1
Chief Conservator of Forests (Project Formulation)	1
Chief Conservator of Forests (Protection)	1
Chief Conservator of Forests (Publicity)	1
Chief Conservator of Forests (Research)	1
Chief Conservator of Forests (Wildlife)	1
Chief Conservator of Forests, Working Plan, Coimbatore	1
Chief Conservator of Forests, Working Plan, Salem	1
Chief Conservator of Forests, Working Plan, Trichy	1
Chief Conservator of Forests, Working Plan, Vellore	1
Conservator of Forests & Additional Director, AAZP	1
Conservator of Forests, Genetics, Coimbatore	1
Conservator of Forests, Planning & Development	1
Conservator of Forests, Research	1
Conservator of Forests - (Territorial) Chennai, Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Madurai, Salem, Tiruchirapalli, Tirunelveli, Vellore, Villupuram, Virudhunagar	12
Deputy Conservator of Forests & Deputy Director, AAZP	1
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Madurai	1
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Tirunelveli	1
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Trichy	1
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Vellore	1
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Virudhunagar	1
Deputy Conservator of Forests - (Territorial) Attur, Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Gudalur, Harur, Hosur, Kallakurichi, Kancheepuram, Kanyakumari, Kodaikanal, Madurai, Namakkal, Nilgiris (North), Nilgiris (South), Pudukottai, Salem, Sathyamangalam, Sivagangai, Thanjavur, Theni, Thoothukudi, Tirunelveli, Tirupattur, Tiruvallur, Tiruvannamalai, Trichy, Vellore, Villupuram	30
Wildlife Warden, Chennai	1
Wildlife Warden, Nagai	1
Wildlife Warden, Ramanathapuram	1

(1)	<b>Total Senior Duty Posts</b>	<b>90</b>
(2)	Central Deputation Reserve not exceeding 20 % of Item 1 above	18
(3)	State Deputation Reserve not exceeding 25 % of Item 1 above	22
(4)	Training Reserve not exceeding 3.5 % of Item 1 above	3
(5)	Leave Reserve and Junior Post Reserve not exceeding 16.5 % of Item 1 above	14
(6)	Posts to be filled by Promotion under Rule 9 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966 not exceeding 33.3% of items 1,2,3 & 4 above	44
(7)	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5 – 6 above)	103
	<b>Total Authorized Strength (Items 6 + 7 above)</b>	<b>147</b>

[F. No. 16016/04/2009-AIS-II(A)]  
HARISH C. RAI, Desk Officer

**Note-1:**—Prior to the issue of this Notification, the total authorized strength of the IFS Cadre of Tamil Nadu was 148.

**Note 2:**—The Principal Regulations were notified vide notification No.6/1/66-AIS(IV), dated 30.10.1966 as GSR No.1672 in the Extraordinary Gazette of India dated 31.10.1966 and Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966 have been amended, vide GSR Nos. given below:

S. No.	GSR No.	Date of Publication	S. No.	GSR No.	Date of Publication
1	1673	30.10.66	16	47(E)	20.01.72
2	17	07.01.67	17	48(E)	20.01.72
3	653	06.05.67	18	478(E)	04.12.72
4	654	06.05.67	19	192(E)	02.04.73
5	689	13.05.67	20	321(E)	27.06.73
6	1083	08.06.68	21	391(E)	10.08.73
7	1887	09.08.69	22	142	24.01.71
8	80	17.01.70	23	28(E)	08.05.71
9	485	21.03.70	24	273(E)	11.01.72
10	545	04.04.70	25	300(E)	20.01.72
11	1802	24.10.70	26	812	29.04.72
12	135	24.01.75	27	2227	16.08.75
13	136	24.01.71	28	71	17.01.76
14	665	08.05.71	29	407(E)	16.06.76
15	45(E)	20.01.72	30	1064	24.07.76

31.	444 (E)	06.07.76	81.	352E	10.3.89
32.	750 (E)	03.08.76	82.	553E	16.5.89
33.	93 (E)	26.02.77	83.	455	01.07.89
34.	631 (E)	05.10.77	84.	832	11.11.89
35.	13 (E)	06.01.78	85.	916	16.12.89
36.	360(E)	13.07.78	86.	933	30.12.89
37.	436(E)	29.08.78	87.	590	22.09.90
38.	486(E)	25.08.80	88.	603	29.09.90
39.	562(E)	30.09.80	89.	728	08.12.90
40.	626E	03.11.80	90.	730	08.12.90
41.	631E	04.11.80	91.	125(E)	05.03.91
42.	21E	17.01.81	92.	246	13.04.91
43.	31E	23.01.81	93.	473	24.08.91
44.	84(E)	27.02.81	94.	527	14.09.91
45.	456(E)	09.05.81	95.	565	05.10.91
46.	360(E)	23.05.81	96.	584	19.10.91
47.	276(E)	02.06.81	97.	538(E)	06.08.93
48.	386(E)	09.06.81	98.	685(E)	04.11.93
49.	602(E)	16.11.81	99.	687(E)	04.11.93
50.	604(E)	17.11.81	100.	514	22.10.94
51.	653(E)	10.12.81	101.	513	22.10.94
52.	657(E)	11.12.81	102.	321E	31.03.95
53.	294(E)	01.04.82	103.	213	29.04.95
54.	354(E)	26.04.82	104.	278	10.06.95
55.	356(E)	27.04.82	105.	264	06.06.95
56.	778(E)	31.05.82	106.	339	22.07.95
57.	530(E)	20.08.82	107.	375	12.08.95
58.	24E	12.01.83	108.	480	18.11.95
59.	126(E)	28.02.85	109.	479	18.11.95
60.	308(E)	26.03.85	110.	503	02.12.95
61.	327E	29.03.85	111.	537	09.12.95
62.	489E	12.06.85	112.	75E	05.02.96
63.	266	12.04.86	113.	77E	05.02.96
64.	654	30.08.86	114.	231	08.06.96
65.	763	20.09.86	115.	233	08.06.96
66.	798	27.09.86	116.	589E	26.12.96
67.	796	27.09.86	117.	587E	26.12.96
68.	835	04.10.86	118.	585E	26.12.96
69.	837	04.10.86	119.	17E	17.01.97
70.	880	18.10.86	120.	413	20.12.97
71.	164	14.03.87	121.	741E	31.12.97
72.	407	30.05.87	122.	40	29.01.98
73.	619	15.03.87	123.	617E	14.01.98
74.	802	31.10.87	124.	372	10.12.99
75.	826	07.11.87	125.	374	10.12.99
76.	835	14.10.87	126.	824E	21.10.2000
77.	836	14.11.87	127.	827E	21.10.2000
78.	432E	06.04.88	128.	830E	21.10.2000
79.	546E	04.05.88	129.	141	27.04.2002
80.	834E	03.08.88	130.	143	27.04.2002

131	139	27.04.2002
132	145	27.04.2002
133	147	27.04.2002
134	372	21.09.2002
135	173	26.04.2003
136	34 (E)	24.01.2006
137	287(E)	16.05.2006
138	289 (E)	16.05.2006
139	562(E)	15.09.2006
140	564(E)	15.09.2006
141	566(E)	15.09.2006
142	724(E)	23.11.2006
143	703(E)	12.08.2007

144	765(E)	12.12.2007
145	609(E)	26.08.2008
146	109(E)	21.02.2008
147	610(E)	26.08.2008
148	716(E)	03.10.2008
149	748(E)	21.10.2008
150	190(E)	24.03.2009
151	193(E)	24.03.2009
152	498(E)	07.07.2009
153	500(E)	07.07.2009
154	502(E)	07.07.2009
155	504(E)	07.07.2009
156	506(E)	07.07.2009

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 912(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:-

- (i) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 2009 कहा जाएगा ।
  - (ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:-

(क) "अनुसूची-11-क राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा में टाइम स्केल से ऊपर वाले पदों के सम्बन्ध में तालिका में प्रथम स्तम्भ में आने वाली 'तमिलनाडु' प्रविष्टि और द्वितीय स्तम्भ में तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात:-

## तमिलनाडु

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सेवा का प्रमुख), चेन्नै	80,000/- रुपये (नियत)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन्यजीव वार्डन	एचएजी+: 75500 रु. (3% की दर से वार्षिक वृद्धि)-80000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनीकरण)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और निदेशक, टीएनएफए, कोयम्बटूर	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षक अधिनियम)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक और सतर्कता)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आयोजना और बजटिंग)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वनीकरण और विस्तार)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना)	एचएजी वेतनमान: 67000 रु.-(3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)-79000/-
मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक(सीडीएम)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक और निदेशक, एएजेडीपी	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, अन्नमलाई टाईगर रिजर्व	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, कलाकाड मुनदानधुरै टाईगर रिजर्व	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, मुदुमलाई टाईगर रिजर्व	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (वन समेकन)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (वन उपयोग)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (वानिकी विस्तार)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (जीआईएस)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (योजना और विकास)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक और प्रधानाचार्य, टीएनएफटीसी वाईगाई बांध	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक(परियोजना निर्माण)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (प्रचार)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, कोयम्बटूर	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, खेडम	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, त्रिचची	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, वेल्लोर	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-10000/- रु.
वन संरक्षक और अपर निदेशक, एएजेडीपी	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-8900/- रु.
वन संरक्षक, आनुवंशिकी, कोयम्बटूर	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-8900/- रु.
वन संरक्षक, योजना और विकास	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-8900/- रु.
वन संरक्षक, अनुसंधान	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-8900/- रु.
वन संरक्षक, (टेरिटोरियल)	वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-8900/- रु.

चेन्नै, कोयम्बटूर, धर्मापुरी, डिन्डीगुल, इरोड, मदुरै, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधुनगर	
---	--

(ख) अनुसूची-1। ख में: टाईम वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतनमान वाले पदों के सम्बन्ध में 'तमिलनाडु' प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

उप वन संरक्षक और उप निदेशक, एएजेडपी
उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, मदुरै
उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, तिरुनेलवेली
उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, त्रिचची
उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, वेल्लोर
उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, विरुधुनगर
अप-वन संरक्षक, (टेरिटोरियल)
अत्तुर, कोयम्बटूर, धर्मापुरी, डिन्डीगुल, इरोड, गुदालुर, हरूर, होसुर, कल्लाकुरुची, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, कोडाइकनाल, मदुरै, नमक्काल, नीलगिरी (उत्तर), निलगिरी (दक्षिण), पुडुकोट्टाई, सैलम, सत्यमंगलम, सिवगंगाई, तंजावर, थेनी, थुथुकुडी, तिरुनेलवेली, तिरुपत्तूर, तिरुवल्लूर, तिरुवन्नामलाई, त्रिचची, वेल्लोर, विल्लुपुरम
वन्यजीव वार्डन, चेन्नै
वन्यजीव वार्डन, नागाई
वन्यजीव वार्डन, रामानाथपुरम

[ फा. सं. 16016/04/2009-अ.भा.से.-II (ख) ]

हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी:-मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. सं. 109(अ) दिनांक 21.02.2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में सा.का.नि. सं. 691(अ) दिनांक 27.09.2009 और सा.का.नि. सं. 588(अ) दिनांक 20.08.2009 द्वारा संशोधित किए गए ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

**G.S.R. 912(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government in consultation with the Government of Tamil Nadu hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 namely:-

1. (i) These Rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Eleventh Amendment Rules, 2009.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007:-  
(a) In "Schedule II- A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments" in the Table, for the entry 'Tamil Nadu' appearing in the first column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted, namely:

**TAMIL NADU**

Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force), Chennai	Rs 80,000/- (Fixed)
Principal Chief Conservator of Forests, Chief Wild Life Warden	HAG+Rs.75500 (Annual increment @ 3%)-Rs.80000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration)	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Afforestation)	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests & Director, TNFA, Coimbatore	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Forest Conservation Act)	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Personnel & Vigilance)	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Planning & Budgeting)	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-



Additional Principal Chief Conservator of Forests (Research)	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry & Extension)	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Working Plan)	HAG Scale: Rs.67000- (annual increment @ 3%) 79000/-
Chief Conservator of Forests (Biodiversity Conservation)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (CDM)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests & Director, AAZP	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests & Field Director, Annamalai Tiger Reserve	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests & Field Director, Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests & Field Director, Mudumalai Tiger Reserve	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Forest Consolidation)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Forest Utilization)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Forestry Extension)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (GIS)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Headquarters)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (HRD)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Planning & Development)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests & Principal, TNFTC Vaigai Dam	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Project Formulation)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Protection)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Publicity)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Research)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests (Wildlife)	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Working Plan, Coimbatore	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Working Plan, Salem	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Working Plan, Trichy	PB-4+GP-Rs 10000/-
Chief Conservator of Forests, Working Plan, Vellore	PB-4+GP-Rs 10000/-
Conservator of Forests & Additional Director, AAZP	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Genetics, Coimbatore	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Planning & Development	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests, Research	PB-4+GP-Rs 8900/-
Conservator of Forests - (Territorial) Chennai, Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Madurai, Salem, Tiruchirapalli, Tirunelveli, Vellore, Villupuram, Virudhunagar	PB-4+GP-Rs 8900/-

(b) In Schedule-II B: Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the entry 'Tamil Nadu', the following shall be substituted, namely:

Deputy Conservator of Forests & Deputy Director, AAZP
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Madurai
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Tirunelveli
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Trichy
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Vellore
Deputy Conservator of Forests, Social Forestry, Virudhunagar
Deputy Conservator of Forests – (Territorial)
Attur, Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Gudalur, Harur, Hosur, Kallakurichi, Kancheepuram, Kanyakumari, Kodaikanal, Madurai, Namakkal, Nilgiris (North), Nilgiris (South), Pudukottai, Salem, Sathyamangalam, Sivagangai, Thanjavur, Theni, Thoothukudi, Tirunelveli, Tirupattur, Tiruvallur, Tiruvannamalai, Trichy, Vellore, Villupuram
Wildlife Warden, Chennai
Wildlife Warden, Nagai
Wildlife Warden, Ramanathapuram

[F. No. 16016/04/2009-AIS-II(B)]

HARISH C. RAI, Desk Officer

Note: —The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide GSR No.109(E) dated the 21.02.2008 and subsequently were amended vide GSR No.691(E) dated 27.09.2008 and GSR No. 588(E) dated 20.08.2009.